

ADVANCE/SECRETARIAL/2025-26/11

October 30, 2025

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Maharashtra Scrip Code:544562	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Maharashtra Symbol: ADVANCE
---	---

Dear Sir/Madam,

Sub:- Newspaper publication pertaining to unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements pertaining to unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025, published in English and regional newspapers today.

The said Financial Results were published in the following newspapers on today i.e. Thursday, October 30, 2025

1. Financial Express (English)
2. Business Remedies (Hindi)

The above information is also available at the company's website at www.advanceagrolife.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For Advance Agrolife Limited
(Formerly known as Advance Agrolife Private Limited)

NISHA Digitally signed
by NISHA
GUPTA
GUPTA Date:
2025.10.30
11:42:17 +05'30'

Nisha Gupta
Company Secretary & Compliance officer
Membership No. A42708

POST OFFER ADVERTISEMENT TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

LORD'S MARK INDUSTRIES LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS LORDS MARK INDIA LIMITED) ("LMIL"/ "TARGET COMPANY"/ "TC")
(Corporate Identification No. L35103MH1979PLC021614)
Registered Office: 317, Maker Chamber V, 221 Nariman Point, Mumbai, Maharashtra, 400021, India;
Phone No.: +91-22-22823853; Email id: kratoseal@gmail.com; dvtl@rediffmail.com; Website: www.lordsmarkindia.com

Open offer for acquisition of 2,60,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the equity and voting share capital of the Target Company by Mr. Sachidanand Hariram Upadhyay (Acquirer).
This Post offer Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, The Manager to the offer, on behalf of the Acquirer, in connection with the offer made by the Acquirer in compliance with regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulation, 2011").
The Detailed public statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirer have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratnahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) on June 10, 2025.
1. Name of the Target Company : Lord's Mark Industries Limited
(formerly known as Lords Mark India Limited)
2. Name of the Acquirer : Mr. Sachidanand Hariram Upadhyay
3. Name of the Manager to the offer : Navigant Corporate Advisors Limited
4. Name of the Register to the officer : Purva Sharegistry (India) Private Limited
5. Offer details
a) Date of Opening of the Offer : Monday, 13th October, 2025
b) Date of the Closing of the offer : Tuesday, 28th October, 2025
6. Date of Payment of Consideration : Not Applicable since no shares tendered in the Open Offer
7. Details of the Acquisition :

Sr No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actual
7.1.	Offer Price	Rs. 30.00 per Equity Share	Rs. 30.00 per Equity Share
7.2.	Aggregate number of Shares tendered	2,60,000	Nil
7.3.	Aggregate number of Shares accepted	2,60,000	Nil
7.4.	Size of the offer (Numbers of shares multiplied by Offer price per share)	Rs. 78,00,000	Nil
7.5.	Shareholding of the Acquirer before Share Purchase Agreement (SPA) and Public Announcement (No. & %)	Nil (0.00%)	Nil (0.00%)
7.6.	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement (SPA) • Number • % Fully Diluted Equity Share Capital	4,90,051 (49.01%)	4,90,051 (49.01%)
7.7.	Shares Acquired by way of Open offer • Number • % Fully Diluted Equity Share Capital	2,60,000 (26.00%)	0 (0.00%)
7.8.	Shares Acquired after detailed Public Statement • Number of Shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
7.9.	Post offer Shareholding of Acquirer • Number • % Fully Diluted Equity Share Capital	7,50,051 (75.01%)	4,90,051 (49.01%)
7.10	Pre and Post Offer Shareholding of Public Shareholders • Number • % Fully Diluted Equity Share Capital	Pre- Offer 5,09,949 (50.99%) Post Offer 2,49,949 (24.99%)	Pre- Offer 5,09,949 (50.99%) Post offer 5,09,949 (50.99%)

8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the fulfillment of his obligations as laid down by SEBI (SAST) Regulations, 2011.
9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI.
10. Capitalized terms used in this advertisement and not define herein, shall have same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated 03.10.2025.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.
Tel No. + 91 22 4120 4837 / 4973 5078
Email id: navigant@navigantcorp.com
Website: www.navigantcorp.com
SEBI Registration No: INM000012243
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai
Date: October 29, 2025

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE

happiest minds
The Mindful IT Company
Born Digital . Born Agile

HAPPIEST MINDS TECHNOLOGIES LIMITED
CIN : L72900KA2011PLC057931
Regd. Office: #53/1-4, Hosur Main Road, Madivala (next to Madivala Police Station) Bengaluru 560 068, Karnataka, India
Website: www.happiestminds.com, Email: IR@happiestminds.com, Tel: +91 80 6196 0300

Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2025

The Board of Directors of the Company at its meeting held on October 28, 2025, has approved the unaudited financial results of the Company (both standalone and consolidated) prepared in accordance with Indian Accounting Standards for the quarter and half year ended as on September 30, 2025. The full format of the financial results are available on the websites of the Stock exchanges where shares of the Company are listed i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the Company i.e., www.happiestminds.com. and can be accessed by scanning the QR code.



Place: Bengaluru, India
Date: October 28, 2025

Scan the QR Code to view the Results on the website of the Company

Sd/-
Managing Director

For Happiest Minds Technologies Limited

Payments Bank
फिनो पेमेंट्स बैंक
FINO PAYMENTS BANK LIMITED
CIN : L65100MH2007PLC171959
Registered Office: Mindspace Jaunagar, Plot No Gen 21/F, Tower 1, 8th Floor, TTC Industrial Area, MIDC Shirwane, Navi Mumbai- 400 706
Website: www.finobank.com, Tel.: 022- 7104 7000, Email: cs@finobank.com

EXTRACT OF THE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025


		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
S.No	Particulars	30.09.2025 (Refer note 2)	30.06.2025 Unaudited	30.09.2024 (Refer note 2)	30.09.2025 Audited	30.09.2024 Audited	31.03.2025 Audited
1	Total Income from Operations	40,005	45,347	45,541	85,352	89,227	1,84,710
2	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,122	2,463	2,593	4,585	5,020	10,835
3	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2,122	2,463	2,593	4,585	5,020	10,835
4	Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,535	1,776	2,115	3,311	4,542	9,253
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Paid up share capital (Face Value of ₹10/- each)	8,322	8,322	8,321	8,322	8,321	8,322
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet)	-	-	-	-	-	63,608
8	Net Worth	56,335	55,548	57,767	56,335	57,767	57,186
9	Debt: Equity ratio	1.10	1.28	1.15	1.10	1.15	1.12
10	Earning per share (EPS)- (not annualised)						
	(a) Basic EPS	1.84	2.13	2.54	3.98	5.46	11.12
	(b) Diluted EPS	1.84	2.13	2.53	3.97	5.44	11.08

Note :
1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Fino Payments Bank Limited (the "Bank") at its meeting held on October 29, 2025. The financial results for the half year ended September 30, 2025 have been subjected to audit by Bilimoria Mehta & Co, Chartered Accountants, the statutory auditors of the Bank. The financial results for the half year ended September 30, 2024 and year ended March 31, 2025 were subjected to audit by A P Sarangi & Co, Chartered Accountants. Also, financial results for the quarter ended June 30, 2025 subjected to limited review by A P Sarangi & Co, Chartered Accountants.
2 The figure for the quarter ended September 30, 2025 and September 30, 2024 are balancing figure between audited figures in respect of half year ended September 30, 2025 and September 30, 2024 and the published year to date figures of three months ended up to June 30, 2025 and June 30, 2024 which were subject to limited review.
3 The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and half yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Bank's website (www.finobank.com) The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
4 The Indian Accounting Standards (IND AS) are currently not applicable to banks in India.
5 Figures of the previous periods have been regrouped/ reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.

Place : Navi Mumbai
Date : October 29, 2025



For and on behalf of the Board of Directors
Fino Payments Bank Limited
Sd/-
Rishi Gupta
Managing Director & Chief Executive Officer
DIN : 01433190

**PREMIER ENERGIES LIMITED**
(CIN) : U40106TG1995PLC019909
Regd office: Plot No. 8/B/1 and 8/B/2, E-City, Raviriyala Village, Maheshwaram Mandal, Rangareddy District, Telangana - 501359.
www.premierenergies.com, Tel: + 91 9030994222, E-mail: investors@premierenergies.com


EXTRACT OF THE UNAUDITED STANADALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025

		CONSOLIDATED			STANDALONE		
S. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2025 Un-audited	Six months Ended 30.09.2025 Un-audited	Quarter Ended 30.09.2024 Un-audited	Quarter Ended 30.09.2025 Un-audited	Six months Ended 30.09.2025 Un-audited	Quarter Ended 30.09.2024 Un-audited
1	Total Income from Operations	18,368.65	36,576.07	15,272.20	2,320.46	4,274.38	2,291.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,672.13	8,701.64	2,751.70	710.04	1,025.40	214.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,672.13	8,701.64	2,751.70	710.04	1,025.40	214.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,534.39	6,612.32	2,059.46	551.05	785.67	159.83
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	3,524.09	6,598.51	2,062.13	554.40	787.89	160.02
6	Equity Share Capital	452.99	452.99	450.77	452.99	452.99	450.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet	34,540.61	34,540.61	23,118.27	18,656.57	18,656.57	17,251.99
8	Earnings Per Share (Face Value of ₹ 1/- each) Not Annualised						
	a) Basic	7.89	14.77	5.71	1.23	1.75	0.44
	b) Diluted	7.89	14.77	5.71	1.23	1.75	0.44


Note :
1. The above financial results for the quarter and six months ended September 30, 2025 has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on October 28, 2025.
2. The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and six months ended September 30, 2025 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated un-audited financial results for the quarter and six months ended September 30, 2025 are available on www.premierenergies.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com.
3. Figures in the results are rounded off to the nearest ₹ Million, except Earnings Per Share.

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Chiranjeev Singh Saluja
Managing Director
DIN: 00664638


scan to view financial results



Place: Hyderabad
Date : 29-10-2025

**ADVANCE AGROLIFE LIMITED**
(FORMERLY KNOWN AS ADVANCE AGROLIFE PRIVATE LIMITED)
Registered Office: E-39, RIICO Industrial Area, Bagru (Ext.), Jaipur (Raj)- 303007
Corporate Office: 301, 3rd Floor & 140-B Pandit TN Mishra Marg, Nirman Nagar, Jaipur (Raj)- 302019
Phone: 0141-4810126 • Website: www.advanceagrolife.com • Email: cs@advanceagrolife.com


STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), the Board of Directors of Advance Agrolife Limited ("the Company") have at its meeting held on Wednesday, October 29, 2025, considered and approved the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 ("Financial Results").
The said Financial Results along with Limited Review Reports are available on Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at https://advanceagrolife.com/web/financial_result.
The same can be accessed by scanning the Quick Response (QR) Code from the compatible devices:


For and behalf of Board of Directors
Advance Agrolife Limited
Sd/-
OM PRAKASH CHOUDHARY
Chairperson & Managing Director
DIN- 01004122

Place : Jaipur
Date : 29 October, 2025

www.Larsentoubro.com


**LARSEN & TOUBRO**

LARSEN & TOUBRO LIMITED
Registered Office: L&T House, Ballard Estate, Mumbai 400 001 CIN: L99999MH1946PLC004768

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2025

		Quarter ended			Six months ended		Year ended
Particulars		September 30, 2025 [Reviewed]	June 30, 2025 [Reviewed]	September 30, 2024 [Reviewed]	September 30, 2025 [Reviewed]	September 30, 2024 [Reviewed]	March 31, 2025 [Audited]
1	Revenue from operations	67983.53	63678.92	61554.58	131662.45	116674.40	255734.45
2	Profit before exceptional items and tax	6336.11	5859.53	5555.09	12195.64	10231.74	23104.01
3	Profit before tax	6336.11	5859.53	5555.09	12195.64	10231.74	23578.79
4	Net profit after tax and share in profit/(loss) of joint ventures/associates	4678.01	4318.17	4098.84	8996.18	7543.52	17673.33
5	Net profit after tax attributable to owners of the Company	3926.09	3617.19	3395.29	7543.28	6181.01	15037.11
6	Total comprehensive income attributable to owners of the Company	3658.01	4774.49	3818.27	8432.50	6751.84	15074.46
7	Paid-up equity share capital (face value of share: ₹ 2 each)	275.11	275.07	275.00	275.11	275.00	275.04
8	Other equity attributable to owners of the Company						97380.56
9	Earnings per equity share (EPS) (not annualised):						
	(a) Basic EPS (₹)	28.54	26.30	24.69	54.85	44.96	109.36
	(b) Diluted EPS (₹)	28.53	26.29	24.68	54.82	44.92	109.28

Notes:
(i) The Company reports its financial results on a quarterly basis. The above is an extract of the detailed format of quarterly consolidated financial results filed with the Stock Exchanges. The consolidated and standalone financial results in the detailed format are available on the Company's website viz. www.larsentoubro.com and on the websites of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.
(ii) Figures for the previous periods have been regrouped/reclassified to conform to the classification of the current periods.
(iii) The above consolidated financial results of the Parent Company including its Subsidiaries, Associates & Joint Ventures have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. These results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 29, 2025. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditor.



Place : Mumbai
Date : October 29, 2025

for LARSEN & TOUBRO LIMITED

S. N. SUBRAHMANYAN
Chairman & Managing Director

सत्त्वा ग्रुप और इनोवालस ने भारत में ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटरों के विकास के अगले चरण को गति प्रदान करने के लिए जीसीसी बेस का लॉन्च किया

बिज़नेस रेमेडीज/बैंगलुरु

भारत के अग्रणी रियल एस्टेट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में से एक सत्त्वा ग्रुप ने इनोवालस के साथ साझेदारी में जीसीसी बेस के लॉन्च की घोषणा की है, यह एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत में ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटरों (जीसीसी) की स्थापना करने और इनका पैमाना बढ़ाने में मल्टीनेशनल कंपनियों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में सत्त्वा की विशेषज्ञता और इनोवालस की संचालनात्मक उत्कृष्टता पर आधारित जीसीसी बेस विश्वस्तरीय उद्यमों को एकीकृत एवं आधुनिक सिस्टम प्रदान करता है। यह लॉन्च भारत को लागत प्रभावी गंतव्य से विकसित कर इनोवेशन, इंजीनियरिंग एवं डिजिटल रूपांतरण के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जीसीसी बेस का उद्देश्य गहन स्थानीय विशेषज्ञता, सामरिक साझेदारियों एवं औद्योगिक इंटेलीजेन्स का उपयोग कर, भारत में ग्लोबल बिजनेसज की स्थापना एवं विकास को नया आयाम देना तथा जीसीसी की विस्तार यात्रा को सहज और प्रभावी बनाना है। यह समय इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था।

भारत एक लागत-प्रभावी गंतव्य की पहचान से कहीं आगे निकल चुका है तथा इनोवेशन, इंजीनियरिंग एवं डिजिटल रूपांतरण के लिए दुनिया के सबसे वाइब्रेंट हब के रूप में उभरा है। ग्लोबल कंपनियां भी अब भारत को लेकर अपनी योजनाओं में बदलाव ला रही हैं, भारत अब उनके लिए सिर्फ बैंक ऑफिस ही नहीं रहा, बल्कि इनोवेशन का पावर हाउस और विकास को गति प्रदान करने वाला इंजन बन गया है। जीसीसी बेस इसी बदलाव को उजागर करता है। यह ऐसा एकीकृत एवं टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड सिस्टम उपलब्ध कराता है, जो ग्लोबल उद्यमों को भारत में अपनी स्थापना करने, पैमाना बढ़ाने एवं सुगम संचालन में सहयोग प्रदान करता है। आज भारत में 1600 से अधिक ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर हैं, जहां दो मिलियन से अधिक पेशेवर काम करते हैं। ये सेंटर सालाना 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। ये सेंटर अब लैनदेन की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं हैं। वे प्रोडक्ट डिजाइन, ऑटोमैफिशियल इंटेलीजेन्स, साइबर सिक्योरिटी एवं अडवान्सड एनालिटिक्स में विश्वस्तर पर अग्रणी हैं। उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत में जीसीसी की संख्या 2500 के आंकड़े को पार कर जाएगी, ये सेंटर 110 बिलियन डॉलर के अवसरों के साथ एक मिलियन उच्च कुशलता वाली नौकरियां भी उत्पन्न करेंगे। नैसकॉम के मुताबिक दुनिया में शीर्ष पायदान के 2000 कॉर्पोरेट्स में से 60 फीसदी भारत में जीसीसी का संचालन करते हैं या जीसीसी स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। देश में मौजूद प्रतिभा, डिजिटल सुविधाएं एवं नीतिगत स्थिरता इसके मुख्य कारण हैं।

इस संवेग के बावजूद, जीसीसी स्थापित करना अपने आप में मुश्किल है, जिसके लिए रियल एस्टेट, अनुपालन, प्रतिभा अधिग्रहण और संचालनात्मक प्रशासन के बीच तालमेल बनाना जरूरी है। कंपनियां पेपरवर्क के बजाए इनोवेशन पर ध्यान देना चाहती हैं। जीसीसी बेस इसी अंतर को दूर कर प्रक्रिया को आसान बनाएगा। यह एकमात्र अकाउन्टेबल प्लेटफॉर्म

बनाएगा, जो स्पीड के साथ-साथ पारदर्शिता एवं अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगा।

भारत आज दुनिया के लिए बैंक ऑफिस के बजाए इनोवेशन इंजन बनकर उभरा है।" शिवम अग्रवाल, वाईस प्रेजिडेंट, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, सत्त्वा ग्रुप ने कहा, "सवाल अब यह नहीं कि इसे भारत में बनाएं या नहीं, बल्कि यह है कि इसे सही तरीके से कैसे करें। कंपनियां इन मुश्किलों, अस्पष्टता तथा दर्जनों वेंडर्स के साथ तालमेल बनाने की कोशिश से थक चुकी हैं। जीसीसी बेस इसी स्थिति में बदलाव लाता है। हमने एक आधुनिक प्लेटफॉर्म बनाया है जो पहले ही दिन से पारदर्शिता, स्पीड एवं प्रशासन बनाए रखते हुए आपको परिपक्वता की ओर ले जाता है। सत्त्वा में हमारे लिए यह रियल एस्टेट से कहीं बढ़कर है। यह ऐसा भौतिक एवं संस्थागत ढांचा बनाने के बारे में है जो रूप में ग्लोबल इनोवेशन लीडर के रूप में अग्रसर करता है। हम यहां कारोबार को सुगम बना रहे हैं, जो

पीएचडीसीसीआई के प्रतिनिधियों ने राजस्व सचिव से भेंट कर आगामी आम बजट के लिए सुझाव दिए

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली/आईएनएस

आगामी बजट तैयार करने के लिए सरकार लगातार इंडस्ट्री के साथ बैठकें कर रही है और इन बैठकों में केंद्र सरकार का फोकस व्यापार में आसानी बढ़ाने और टैक्स के फायदों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर है। इस क्रम में बुधवार को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अधिकारियों ने राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव से भेंट की। बैठक के बाद पीएचडीसीसीआई के सीईओ और महासचिव डॉ. रणजीत मेहता ने कहा कि बैठक में अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर को लेकर बातचीत हुई है। हमने इसमें व्यापार पर आसानी को लेकर भी चर्चा की, जिस पर सरकार का फोकस है। उन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्री बांडी की ओर से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) इंडस्ट्री की लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव दिए गए हैं और कुल मिलाकर सुझावों को लेकर सरकार का एप्रोच काफी सकारात्मक है और यह इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है।

पीएचडीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट साकेत डालमिया ने कहा कि नए कानून आ रहे हैं उनमें अंतिम मील तक लागू करने में काफी समस्या आ रही है, जिसे सरकार की ओर से सुना गया और काफी सकारात्मक रिसपॉन्स मिला है। पीएचडीसीसीआई की इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी चेयरमैन अशोक बत्रा ने कहा कि यह बैठक काफी सकारात्मक रही है और इंडस्ट्री की इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी समस्याओं को सरकार ने काफी ध्यान से सुना है। हमने सरकार को काफी सुझाव दिए हैं। पीएचडीसीसीआई की टैक्स कमेटी के चेयरमैन मुकुल बागला ने कहा कि हमने टैक्स को लेकर सरकार से बातचीत की है। पिछले बजट में पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती के बावजूद भी इस साल टैक्स कलेक्शन में अब तक 6.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस कारण से हमने सुझाव दिया है कि टैक्स कटौती को बढ़ाया जाए और 30 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत, 50 लाख तक की आय पर 30 प्रतिशत और उसके बाद 50 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाए, जिससे सेलरी क्लास को अर्थव्यवस्था में वृद्धि का फायदा मिले।

अदाणी फाउंडेशन ने एसीसी के साथ मिलकर छत्ताटांड की महिला किसान को सौर सिंचाई और जालीदार खेती के माध्यम से सशक्त बनाया

adani

Cement

बिज़नेस रेमेडीज/झारखंड

विविधकृत अदाणी पोर्टफोलियो की सीमेंट और निर्माण सामग्री कंपनी एसीसी, अदाणी फाउंडेशन के साथ मिलकर छत्ताटांड जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सिंचाई और नवीन खेती के तरीकों को अपनाकर जलवायु-अनुकूल खेती का समर्थन कर रही है। यह पहल किसानों को

अदाणी फाउंडेशन ने भाग्यवती देवी को सौर सिंचाई और जालीदार खेती की तकनीकों से मदद की बेहतर फसल उपज और पानी की उपलब्धता के कारण उनकी आय में प्रति माह 6,000 रुपये की वृद्धि हुई इस पहल ने टिकाऊ खेती को संभव बनाया और ग्रामीण किसानों के बीच संसाधनपूर्ण भूमि उपयोग को प्रेरित किया

अपनी ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल करने, ज्यादा सब्जियाँ उगाने और ज्यादा कमाई करने में मदद मिली। इन बदलावों ने उन्हें समुदाय में ज्यादा आत्मविश्वास और सम्मान का एहसास कराया। ग्रामीण इलाकों में सरल और उपयोगी कृषि उपकरण लाकर, एसीसी भाग्यवती जैसे छोटे किसानों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर रहा है। उनकी कहानी बताती है कि कैसे सही मदद खेती और ग्रामीण परिवारों के भविष्य, दोनों को बेहतर बना सकती है।

सीएम सुखविंदर ने हिमाचल के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की

शिमला/आईएनएस। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए विशेष सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए ऋण सीमा में दो प्रतिशत की वृद्धि और अनुदान एवं ऋण सहायता में उदरता बरतने का अनुरोध किया। सुक्खू ने बताया कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के बावजूद राजस्व घाटा अनुदान में नियमित कमी और लगातार तीन वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में जहां राजस्व घाटा अनुदान 10,249 करोड़ रुपए था, वहीं वर्ष 2025-26 में यह घटकर मात्र 3,257 करोड़ रुपए रह गया है।

भारत को अगली औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करना चाहिए : सुमन बेरी

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली/आईएनएस

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने बुधवार को कहा कि अगली औद्योगिक क्रांति ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी, सेमीकंडक्टर और एडवांस

मटेरियल जैसे उद्योगों से परिभाषित होगी और इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत द्वारा किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बेरी ने कहा कि औद्योगिक उत्थान

को लेकर भारत को चीन का उदाहरण लेना चाहिए और अपने लिए एक अलग और खास मार्ग तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की औद्योगिक नीति के अगले चरण में समावेश और अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी।

गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को अपने आईपीओ के लिए सेबी ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

भारत की अग्रणी निजी इक्विटी और वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों में से एक, गजा कैपिटल ब्रांड के तहत संचालित गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को गोपनीय तरीके से दायर किए गए सार्वजनिक निर्गम के लिए अपने मसौदा पत्रों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(सेबी) से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी से किसी निजी इक्विटी फर्म द्वारा देश के पहले आर्थिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का मार्ग प्रशस्त होता है। इस वर्ष की शुरुआत में, गजा कैपिटल ने पूर्व सेबी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा को अपना गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। अन्य गैर-कार्यकारी बोर्ड सदस्यों में शैलेश हरिभक्ति,

पृथ्वी हल्लिया, मनीष सभरवाल, अरिंदम भट्टाचार्य और शीतल मेहरा शामिल हैं। कार्यकारी बोर्ड में संस्थापक गोपाल जैन, रंजीत शह और इमरान जाफर शामिल हैं। गजा कैपिटल ने इस इश्यू के लिए जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल सिक्योरिटीज को प्रमुख प्रबंधक नियुक्त किया है। जून में, कंपनी ने एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आकाश

भंसाली और जगदीश मास्टर के नेतृत्व में प्री-आईपीओ प्लेसमेंट में 1,625 करोड़ रुपये के मूल्यांकन पर 125 करोड़ रुपये जुटाए थे। 2004 में स्थापित, गजा कैपिटल ने प्रदर्शन और मूल्य सृजन के एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ खुद को भारत की पहली संस्थागत और स्वतंत्र निजी इक्विटी फर्म के रूप में स्थापित किया है। इसके निवेशों में फ्रैक्चल एनालिटिक्स, पोपल होम फाइनेंस, आरबीएल बैंक, टीमलीज, लाइटहाउस लर्निंग, एवेंट्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स (ईआई), लीडस्क्रोयर्ड और साइनजी शामिल हैं। प्रस्तावित लिस्टिंग भारत के वैकल्पिक बाजार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो घरेलू निजी इक्विटी की बढ़ती परिपक्वता और संस्थागत गहराई को रेखांकित करता है।

सचिदानंद उपाध्याय ने टाइम मैगजीन में दूसरी बार स्थान पाकर वैश्विक बिजनेस एलीट में जोड़ी अपनी पहचान

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (एलएमआईएल) के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिदानंद उपाध्याय ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है – टाइम मैगजीन में लगातार दूसरी बार फीचर होकर। यह दुर्लभ सम्मान उन्हें वैश्विक व्यापार जगत के उन चुनिंदा व्यक्तियों के समूह में शामिल करता है, जिनमें भारत के कुछ सबसे सम्मानित उद्योग अग्रणी भी शामिल हैं, जिन्हें उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए दो बार फीचर किया जा चुका है।

लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (एलएमआईएल) के मैनेजिंग डायरेक्टर सचिदानंद उपाध्याय

टाइम मैगजीन की 'एंटरप्रेन्योर्स टू वॉच' सूची में

2024 और 2025 दोनों वर्षों में सचिदानंद उपाध्याय का नाम शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि वह भारत में हेल्थकेयर और एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग के इन्ोवेशन को नया आकार देने वाले एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित लीडर बन चुके हैं। 'टाइम मैगजीन की प्रोफाइल में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि सचिदानंद उपाध्याय

ADVANCE

AGROLIFE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS ADVANCE AGROLIFE PRIVATE LIMITED)

रजिस्टर्ड ऑफिस: E-39, चौको इंडस्ट्रियल एरिया, बगरू (एक्सप्लेन), जयपुर (राज.) 303007

कॉर्पोरेट ऑफिस: 301, तीसरी मंजिल और 140-Bपट्टिन टीएल मिश्रा मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर (राज.) 302019

फोन: 0141-4810126 • वेबसाइट: www.advanceagrolife.com • ईमेल: cs@advanceagrolife.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का वितरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम 33 के अनुपालन में, एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड ("कंपनी") के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025 को हुई अपनी मीटिंग में 30 जून, 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणामों") पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

उक्त वित्तीय परिणाम सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट https://advanceagrolife.com/web/financial_result पर भी उपलब्ध हैं।

इन्हें संगत उपकरणों से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड स्कैन करके देखा जा सकता है।

स्थान: जयपुर

दिनांक: 29 अक्टूबर 2025

एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड

CIN: U24121RJ2002PLC017467

रजिस्टर्ड ऑफिस: E-39, चौको इंडस्ट्रियल एरिया, बगरू (एक्सप्लेन), जयपुर (राज.) 303007

कॉर्पोरेट ऑफिस: 301, तीसरी मंजिल और 140-Bपट्टिन टीएल मिश्रा मार्ग, निर्माण नगर, जयपुर (राज.) 302019

फोन: 0141-4810126 • वेबसाइट: www.advanceagrolife.com • ईमेल: cs@advanceagrolife.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का वितरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के विनियम 33 के अनुपालन में, एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड ("कंपनी") के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025 को हुई अपनी मीटिंग में 30 जून, 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनी के गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणामों") पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

उक्त वित्तीय परिणाम सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट https://advanceagrolife.com/web/financial_result पर भी उपलब्ध हैं।

इन्हें संगत उपकरणों से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड स्कैन करके देखा जा सकता है।

स्थान: जयपुर

दिनांक: 29 अक्टूबर 2025

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से और उनके लिए एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड हस्ताक्षर/ओम प्रकाश चौधरी

चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर

DIN-01004122